



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 22]

नई दिल्ली, शनिवार, जून 2—जून 8, 2007 (ज्येष्ठ 12, 1929)

No. 22]

NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 2—JUNE 8, 2007 (JYAISTHA 12, 1929)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची			
भाग I--खण्ड-1--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	595	भाग II--खण्ड-3--उप-खण्ड (iii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	पृष्ठ
भाग I--खण्ड-2--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	491	भाग II--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग I--खण्ड-3--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	3	भाग III--खण्ड-1--उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	2229
भाग I--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	871	भाग III--खण्ड-2--पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	423
भाग II--खण्ड-1--अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*	भाग III--खण्ड-3--मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग II--खण्ड-1क--अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*	भाग III--खण्ड-4--विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	8047
भाग II--खण्ड-2--विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*	भाग IV--गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	439
भाग II--खण्ड-3--उप-खण्ड (i)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*	भाग V--अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्ण	*
भाग II--खण्ड-3--उप-खण्ड (ii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*		

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

(595)

CONTENTS

	Page		Page
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	595	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	491	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	3	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	2229
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	871	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	423
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the Authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	8047
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	439
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*		

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

कम्पनी कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 मई 2007

सं. पी एफ जी (538)/96 प्रशा. II—कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209-क की उप धारा (1) के खण्ड (ii) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा श्री एस. चन्द्रशेखरन, उप निदेशक (निरीक्षण) को क्षेत्रीय निदेशक (पश्चिम क्षेत्र) का कार्यालय, कंपनी कार्य मंत्रालय, मुम्बई में उपरोक्त धारा 209-क के उद्देश्यार्थ प्राधिकृत करती है।

जे. एस. गुप्ता
अवर सचिव

वस्त्र मंत्रालय

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्यालय

नई दिल्ली-110066, दिनांक 8 मई 2007

संकल्प

सं. के-12012/5/16/2006-पी. एण्ड आर./6524--अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड का पुनर्गठन, दिनांक 8 सितम्बर, 2006 के समसंख्यक संकल्प के तहत 2 वर्ष की अवधि के लिये किया गया था। भारत सरकार ने निम्नलिखित उम्मीदवारों को नए गैर सरकारी सदस्य के रूप में अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड में शामिल करने का निर्णय लिया है जबकि 8 सितम्बर, 2006; 23 अक्टूबर, 2006; 22 एवं 27 नवम्बर, 2006, 5, 12, 21 एवं 22 दिसम्बर, 2006; 5 एवं 10 जनवरी, 2007; 1 तथा 14 फरवरी, 2007, 2, 7 एवं 9 मार्च, 2007 के संकल्प के तहत गठित मौजूदा अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी सदस्य यथावत बने रहेंगे।

1. श्री शाहिद इफ्तखार अहमद खान
आर. एच. 8, जिम्मी टॉवर, सैक्टर-4
वाशी, नवी मुम्बई-400703.
2. श्रीमती नितूबा वेलूभा वाघेला
सी-टी/3 जयमालव अपार्टमेंट्स
हैवन पार्क के पास
रामदेवनगर, सेटेलाइट
अहमदाबाद (गुजरात)

पुनर्गठित अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड में अध्यक्ष, सदस्य सचिव सहित 24 सरकारी सदस्यों तथा 52 गैर सरकारी सदस्यों को शामिल करते हुए बोर्ड की वर्तमान संख्या 77 सदस्य हो जाएगी।

तथापि, दिनांक 8 सितम्बर, 2006 के संकल्प में दर्ज अन्य सभी निबंधन एवं शर्तें वही रहेंगी तथा उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी संबंधितों को प्रेषित की जाए तथा इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

डॉ. संदीप श्रीवास्तव
अपर विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 9 अप्रैल 2007

संकल्प

सं. ए. 33011/1/2007-रा.न.सं.निदे.--राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दिनांक 5 सितम्बर, 1995 के संकल्प संख्या ए. 33011/1/94-जीडीपी-I, जिसे 30 सितम्बर, 1995 को भारत के राजपत्र के भाग-I खण्ड-1 में प्रकाशित किया गया था, के पैरा 5 में प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण में निम्नलिखित तीन विशेषज्ञों की सदस्यता का कार्यकाल, जो मद संख्या (xiii) के सामने दर्शाया गया है, 22.8.2007 तक की अवधि के लिए अथवा राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण की 12वीं बैठक आयोजित होने तक जो भी पहले हो, तक बढ़ाया जाता है :--

1. प्रोफेसर के. जे. नाथ अध्यक्ष आर्सेनिक टास्क फोर्स, साल्ट लेक, कोलकाता, पश्चिम बंगाल और पूर्व निदेशक, अखिल भारतीय स्वच्छता और जन स्वास्थ्य संस्थान।
2. प्रोफेसर बी. बी. सुदर्शन पूर्व कुलपति, अन्ना विश्वविद्यालय।
3. प्रोफेसर टी. पी. हाल्लपा प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, पर्यावरणीय विज्ञान गौड़ा एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र, जे. सी. कालेज ऑफ इंजीनियरी मैसूर।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति संलग्न सूची के अनुसार सभी संबंधित को संप्रेषित की जाए।

यह भी आदेश है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

आर. के. वैश
संयुक्त सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 25 अप्रैल 2007

संकल्प

सं. एल. 11011/4/2004-एल.एंड.एम.--इस विभाग के दिनांक 20 नवम्बर, 2006 के समसंख्यक पत्र के संदर्भ में सहकारी समितियों की उपलब्धि की समीक्षा करने के लिए गठित सहकारी समिति विषयक उच्च स्तरीय समिति का कार्यकाल सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से एतद्वारा 10 जुलाई, 2007 तक की आगे की अवधि के लिए बढ़ाया जाता है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी संबंधितों को परिचालित की जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

सतीश चन्द्र
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS

New Delhi, the 18th May 2007

No- PFG(538)/96Admn.II.—In exercise of the powers conferred by Clause (ii) Sub-Section (1) of Section 209A of the companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby authorize Shri S. Chandrasekaran, Deputy Director (Inspection) in the Office of Regional Director (Western Region), Ministry of Company Affairs, Mumbai for the purpose of the said section 209-A.

J. S. GUPTA
Under Secy.

MINISTRY OF TEXTILES

OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER
(HANDICRAFTS)

New Delhi-110066, the 8th May 2007

RESOLUTION

No. K-12012/5/16/2006-P&R. 6524—The All India Handicrafts Board was reconstituted vide resolution of even No. dated 8th September, 2006 for a tenure of two years. The Government of India has decided to induct the following candidates as new non-official Member in the All India Handicrafts Board while retaining all officials and non-official members of the existing All India Handicrafts Board constituted vide resolution dated 8th September, 2006, 23rd October 2006, 22nd & 27th November 2006; 5th, 12th, 21st and 22nd December, 2006; 5th, 10th January, 2007; 1st and 14th February, 2007; 2nd, 7th and 9th March, 2007.

1. Shri Sahid Iftikhar Ahmed Khan
R.H. 8, Jimmy Tower, Sector-4
Vashi, Navi Mumbai-4000703.
2. Smt. Nituba Velubha Vaghela
C-T/3, Jaymalav Apartments
Near Heaven Park
Ramdevnagar, Satellite
Ahmedabad (Gujarat).

The present strength of the Board shall be 77 members comprising of Chairman, 24 official Members including Member Secretary and 52 non-official Members in the reconstituted All India Handicrafts Board.

All other terms and conditions recorded in the resolution dated 8th September, 2006 will, however, remain same and unchanged.

ORDER

ORDERED that a copy of this resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India.

Dr. SANDEEP SRIVASTAVA
Addl. Development Commissioner (Handicrafts)

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS
NATIONAL RIVER CONSERVATION DIRECTORATE

New Delhi, the 9th April 2007

RESOLUTION

No. A.33911/1-2007-NRCD-1—In paragraph 5 of the Resolution No. A.330.1/1/94-GPD.I dated 5th September, 1995 of the Ministry of Environment and Forests, National River Conservation Directorate and published in the Gazette of India Part I Section 1 dated 30th September 1995, the tenure of the membership of the following three experts in the National River Conservation Authority (NRCA) under the Chairmanship of the Prime Minister appearing against item (viii) thereof shall be continued for the period upto 22.8.2007 or the holding of 12th meeting of NRCA, whichever is earlier :—

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Prof. K. J. Nath | Chairman, Arsenic Task Force, Salt Lake, Kolkata, West Bengal & Former Director, All India Institute of Hygiene and Public Health. |
| 2. Prof. B. B. Sunderashan | Former Vice Chancellor, Anna University. |
| 3. Prof. T. P. Hallap, Gowda | Professor & Head, Center for Environmental Sciences & Technology, JC College of Engineering, Mysore. |

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

R. K. VAISH
Jt. Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION)

New Delhi, the 25th April 2007

RESOLUTION

No. L-11011/4 2004-L & M.—In continuation of this Department's resolution of even number dated 20th November, 2006, with the approval of the competent authority, the term of the High Powered Committee on Cooperatives constituted to review the achievements of cooperatives is hereby extended for further period upto 10th July, 2007.

ORDER

ORDERED that copy of the resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

SATISH CHANDER
Jt. Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 2007

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI 2007